

ईओयू स्कीम के लिए दिनांक 20.02.2015 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की प्रथम बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए अनुपूरक कार्यसूची

1.9(15) मैसर्स टेटा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – पुरानी मशीनों की मरम्मत करने एवं उन्हें फिर से चमकाने के लिए सीपज के अंतर्गत ईओयू यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव।

आवेदक कंपनी ने फिलिंग मशीनों की मरम्मत करने और उनको फिर से चमकाने के लिए ईओयू यूनिटों और अनुरक्षण यूनिटों की स्थापना करने हेतु तथा उत्तरवर्ती रूप से निर्यात करने हेतु अनुमोदन-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

परियोजना की प्रस्तावित लागत निम्नवत है :

भूमि	-
भवन	50 लाख रुपये
संयंत्र एवं मशीनरी	
स्वदेशी	15 लाख रुपये
आयातित	120 लाख रुपये
कुल	135 लाख रुपये

परियोजना एनएफई 2800 लाख रुपये है।

कुल प्रस्तावित से रोजगार 72

विदेश व्यापार नीति/एचबीपी का संगत प्रावधान : विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.16 के अनुसार

"विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए रिकंडीशनिंग, मरम्मत, रिमेकिंग, परीक्षण अंशशोधन, गुणवत्ता सुधार; प्रौद्योगिकी का उन्नयन और पुनर्अभियांत्रिकी क्रियाकलाप करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिट की स्थापना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से की जा सकती है। तथापि, इन क्रियाकलापों के लिए एफटीपी के पैरा 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 और एचवीपी VI के पैरा 6.28 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

विकास आयुक्त की संस्तुति : आवेदक कंपनी ईओयू की स्थापना के लिए यथानिर्धारित प्रावधानों को पूरा करती है। यह संस्तुति की जाती है कि यूनिट के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।